

Petronet LNG Limited

Regd. Office: World Trade Centre, Babar Road, Barakhamba Lane, New Delhi – 110001 Phone: 011-23411411, Fax: 011-23472550, CIN: L74899DL1998PLC093073 Email: investors@petronetlng.com, Company's website: www.petronetlng.com

CS/PLL/Listing/2020

2nd June, 2020

The Manager
BSE Limited
Phiroze Jeejee bhoy Towers
Dalal Street, Mumbai – 400 001

The Manager National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra East, Mumbai – 400 051

Sub: Intimation under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 – Newspaper Advertisement and Reminder Letter to shareholders with respect to transfer of unpaid / unclaimed dividend and Equity Shares relating to unpaid / unclaimed dividends for the financial year 2012-13 to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached the following documents:

- 1. Copies of newspaper advertisement published in Hindustan Times (English) and Hindustan (Hindi).
- 2. Copy of reminder letter to shareholders.

The reminder letters are being sent to the shareholders, whose email addresses are registered, on their respective emails. The required communication in this behalf shall be sent to the concerned shareholders, whose email addresses are not registered, at the earliest possible when postal services are resumed under current COVID-19 situation.

This is pursuant to provisions of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of Corporate Affairs and amendments thereto.

This is for your kind information and record please.

Thanking you.

Yours faithfully

Sd/-(Rajan Kapur) CGM & VP-Company Secretary

Encl: as above

HTSPOTLIGHT

Corporate tax cut a bad gamble health staff on HCQ: Study

FINANCIAL UNCERTAINTY Gross tax collections in 2019-20 were less than those in 2018-19; cuts fail to fuel growth

roshan.k@htlive.com

NEW DELHI: The Indian economy. like the rest of the world, is facing an unprecedented disruption because of the Covid-19 pandemic, Everywhere, governments are acting to minimise the economic damage. The Narendra Modi government has also announced a package amounting to 10% of India's GDP, including past fiscal and monetary measures

To be sure, fiscal stimulus in this package is just 1% of India's gross domestic product (GDP). This is lower than what most major economic have committed. Why did India hold back on the fiscal paddle? The Indian economy had been caught in a slowdown even before the pandemic hit. This made the case for a fiscal push even stronger.

Statistics released by the ministry of finance give a hint to this otherwise perplexing question. India's revenue projection and collection abilities are facing an unprecedented crisis. Gross tax collections in 2019-20 were less than those in 2018-19. This is only the second instance since 1961-62 of tax collections having declined on a yearon-year basis. This is largely the result of what can be described as a bad gamble on corporation tax cuts to revive economic growth.


What makes it even worse is that the government did not see this coming until February These figures raise serious questions on the government's tax buoyancy assumptions. Tax buovancy is the additional revenue generated per unit increase in GDP. If tax collections went down when the economy was growing, they could suffer a huge fall when it is headed for a contraction. This also raises serious questions on assertions about decisions such as demonetisation and the Goods and Services Tax (GST) leading to a widening of the tax base


On May 29, the Controller General of Accounts, which works under the ministry of finance, released provisional figures for 2019-20. They put gross tax collections in 2019-20

INDIA'S TAX MESS

2019-20 gross tax collections are lower than 2018-19. Corporation Tax cuts have the biggest responsibility.







at ₹20.09 lakh crore. This is lower than the ₹20.8 lakh crore collected in 2018-19.

The Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) database shows that it is only the second instance (after 2001-02) since 1961-62 that tax collection had fallen on a year-on-year basis. The 2019-20 provisional collections are just 81.7% of the Budget Estimates (BE) presented in July 2019.

One quarter of the year was already over when the govern-

ment presented its budget. They are 7% less than the Revised Estimate (RE) figures given in the 2020-21 Budget.

A look at tax buoyancy numbers paints a grimmer picture. In 2019-20 India's tax buoyancy was -0.05, the lowest since 1962-63

In 2001-02, this value was -0.01. The data also shows that this is not an aberration. Tax buoyancy has been falling since 2016-17 onwards. (See Chart 1) What explains the fall in tax collections? The government announced a reduction in corporation tax rates in September last vear

It slashed corporate tax rates for domestic manufacturers from 30% to 22%, while for new manufacturing companies: the rate was reduced from 25% to 15% provided they do not claim any exemptions. This was expected to lead to a revenue loss of ₹1.45 lakh crore. This was justified on the grounds that the move will revive the economy.

The then revenue secretary Aiay Bhushan Pandey had said that the decision was "one of the biggest tax reforms ever undertaken by India—one that would not only encourage new investments by domestic as well as foreign investors but also motivate

details). The gamble seems to have backfired badly. The revenue loss is bigger than expected, BE for corporate tax collection was ₹7.66 lakh crore in 2019-20. The provisional figures are just ₹5.56 lakh crore, a shortfall of ₹2.09 lakh crore.

them to reinvest their profit'

(see https://bit.ly/2zI80lb) for

The investment scenario actually became worse. Gross fixed capital formation, which measures new investment activity, contracted 3.9% on a year on year basis in the quarter ending September 2019. It contracted at 5.2% and 6.5% in the quarters ending December 2019 and March 2020.

Even this does not explain the entire shortfall. Other major tax heads such as income tax and GST have also fallen significantly short of the 2019-20 BE figures. However, they are not less than the 2018-19 collections. unlike corporation tax.

CMIE data shows that income tax collection figures have been missing BE figures by an increasing margin since 2017-18. This raises serious questions about the efficacy of demonetisation in widening the direct tax base, GST collections have not been able to meet BE figures until now

In fact, the only major revenue head which had over performed vis-a-vis BE targets in both 2017-18 and 2018-19 was corporation tax. Thanks to September's tax cuts, this item had the biggest shortfall in 2019-20. (See Chart 2)

Because of the pandemic, both growth and tax collections will face very strong headwinds. At a time when a fiscal push was most needed, the government has a huge tax crisis on its hands. And it has nobody but itself to blame for sacrificing the golden goose of corporation taxes in the false hope of boost ing economic growth

Rhythma Kaul rvhthma kaul@htlive.com

NEW DELHI: As high as 80% of the health care workers (HCWs) on six or more prophylactic doses of the anti-malarial drug hydroxychloroguine (HCQ) were not infected by Sars-CoV-2, the virus that causes the coronavirus disease (Covid-19). according to a new pre-print study by the Indian Council of Medical Research (ICMR).

The study results were one of the driving factors behind India last week expanding the use of HCQ as a prophylactic drug beyond health care workers in Covid-19 hospitals and close contacts of a laboratory positive case to frontline workers such as surveillance workers deployed in containment zones. and paramilitary or police personnel involved in Covid-19 related activities, among others.

The results are based on a case control study for which participants were randomly drawn from the countrywide Covid-19 testing data portal maintained by ICMR. The test results and contact details of health care workers (HCWs). diagnosed as positive (cases) or negative (controls) for Sars-CoV-2 using the reverse transcription-polymerase chain

Until results of clinical trials for HCQ prophylaxis are available,

this study provides actionable information for policymakers to protect HCWs at the forefront.

DRS PANDA, co-author and director, ICMR-National AIDS Research Institute

reaction (RT-PCR) test, were available from this database. 'The main conclusion that

can be drawn after analyzing the data is that HCQ has beneficial effects in infection risk reduction from fourth dose onwards. The first loading dose of 800mg and then every week a dose of 400 mg for 4, 6 or more weeks as per your physician's advice will help cut the risk of infection by 80% in healthcare workers who are not already sick." says Dr Samiran Panda director, ICMR-National AIDS Research Institute, the study co-author.

Data collection for this investigation was done during May 8-23. HCWs tested between the first week of April 2020 and the end of first week of May 2020

formed the sample pool, from which cases and controls were drawn. About 378 and 373 individuals could be contacted in the case and control groups, respectively.

... Ability of this compound to inhibit the infection by SARS-CoV-2, as well as viral replication in cell cultures in a timeand dose-dependent manner made it a primary choice.. These laboratory findings encouraged researchers to con sider HCQ, originally used for malaria, as a repurposed agent for prophylaxis against SARS CoV-219," says the study.

The National Task Force for Covid-19 in India took cogni zance of this evidence and empirically recommended the use of HCQ as prophylaxis against Sars-CoV-2 infection among a select group of asymptomatic people.

"Until results of clinical trials for HCQ prophylaxis become available, this study provides actionable information for poli cymakers to protect HCWs at the forefront of COVID-19 response. Also, it is to be kept in mind that merely taking HCQ is not enough, you cannot go easy on wearing personal protection equipment and other infection control measures," says Dr

COVID TALLY CROSSES 22,000

1,149 cases, 13 deaths across TN

Agencies letters@hindustantimes.com

CHENNAI: In its highest ever singleday spike, Tamil Nadu reported over 1.000 Covid-19 cases on Sunday, as the overall tally zoomed past 22,000 with 173 fatalities so far. The record daily spike came on a day when the state government extended the lockdown till June 30 with various relaxations. including partial resumption of public transport.

With 1,149 additional cases of coronavirus, the state's aggregate was at 22,333, according to a health department bulletin. As many as 13 deaths were reported. Of the new cases, 95 were passengers who arrived in the state through various modes of transport, the bulletin stated.

At present, the number of active cases, including those in isolation, is at 9,400. With 757 people being discharged on Sunday. the total number of recoveries in the state is 12,757. Chennai showed no signs of

city is now at 14,802. According to the bulletin. 12.807 samples were tested at the

reversing the curve, as the state

capital topped the charts, report-

ing 804 new cases. The total in the

72 testing facilities in the state. Those found Covid-19 positive include 729 men, 417 women and three transgenders.

At least 10 people from Chennai, including an 80-year-old man having Type-II diabetes and a 39-year-old woman, suffering from chronic kidney disease were among those who died, as

per the bulletin. The three other patients who succumbed to the virus were from Madurai, Kancheepuram and Namakkal. Of the 173 deaths reported till date. Chennai has reported 129, followed by Chen galpattu and Thiruvallur, at 11 deaths each.

In Chengalpattu, 85 new cases were reported on Sunday, while 47 and 45 cases were reported in Tiruvallur and Tiruvannamalai respectively.

OFFICE OF ADDITIONAL CHIEF ENGINEER. WATER RESOURCES ZONE, UDAIPUR Near Akashvani, Chetak Circle, Udaipur (Rajasthan) 313001 Phone no.: 0294-2528265 Email: - aceudaipur2019@gmail.com Dated : 22 05 202 No.- ACE/Actt/DRIP-Gambhiri/F/2020-21/6994 **INVITATION FOR BIDS**

IFB NO. 04/2020-21 NIB NO. : WRD2021A0125		
NAME OF WORK	Rehabilitation and improvement works of Gambhiri Dam District Chittorgarh under Dam Rehabilitation and Improvement Project (DRIP) Phase-II (UBN No. WRD2021WLOB00434)	
ESTIMATED COST OF WORK	Rs. 1934.00 Lacs	
AMOUNT OF BID SECURITY	Rs. 38.68 Lacs	
PERIOD OF COMPLETION	24 Months including rainy season	
COST OF BID DOCUMENT	Rs. 5000/-	
PERIOD OF SALE OF BIDDING DOCUMENT	From 01.06.2020 to 01.07.2020	
DATE, TIME AND PLACE OF PRE-BID MEETING	08.06.2020 Time 14:00 hours at Office of Additional Chief Engineer, Water Resources Zone, Udaipur	
LAST DATE FOR RECEIPT OF BID (ONLINE UPLOAD)	02.07.2020 upto 16:00 hours	
TIME AND DATE OF OPENING OF BIDS TECHNICAL PART	02.07.2020 at 17:30 hours	
PLACE OF OPENING OF BIDS	Office of Additional Chief Engineer, Water Resources Zone, Udaipur	

Details of NIT/BID document may be seen on website http://eproc.rajasthan.gov.in, www.diproline.org, www.sppp.raj.nic.in and it may be downloaded / uploaded from http://www.waterresources.rajasthan.gov.in and it may be ownloaded / uploaded from http://eproc.raiasthan.gov.in

Additional Chief Enginner Water Resources Zone, Udaipur DIPR/C/3693/2020

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH WATER RESOURCES DEPARTMENT OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER.

WATER RESOURCES DIVISION, MARWAHI DISTT.- GOURELA-PENDRA-MARWAHI (C.G.)

e-Procurement Tender Notice eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in (FIRST - CALL)

SYSTEM TENDER NO. 64007/NOTICE INVITING TENDER NO. 02/SAC/2020-21 Dated: 26.05.2020 Online Tenders are invited for the following works up to 15-06-2020

(17.30 hours IST).

•			
System Tender No.	Group No.	Name of Work	Probable amount of contract
64007		CONSTRUCTION OF EARTHAN DAM FROM RD 0 M. TO 960 M., HEAD SLUICE, WASTE WEIR, SPILL CHANNEL AND EARTH WORK OF MAIN CANAL FROM RD 0 M. TO 4500 M. WITH 34 NOS. CANAL STRUCTURES OF	Rs.

The details can be viewed & downloaded online directely from the Govt. of Chhattisgarh Integrated e-Procurement portal (https://eproc cgstate.gov.in) from dated 01-06-2020 at 17.31 hours (IST) onwards.

RAJADIH TANK SCHEME.

Note: All eligible/interested contractors / bidders are mandated to get enrolled on the integrated e-Procurement portal (https:// eproc.cgstate.gov.in) and get approval on specific vendor class from PWD under centralized contractor/supplier registration in order to download the tender documents and participate in the subsequent

EXECUTIVE ENGINEER WATER RESOURCES DIVISION, MARWAHI (C.G.)
For, Chief Engineer Hasdeo Basin Water Resources Deptt. Bilaspur (C.G.) G-81119/3

nindustantimes 'I'M WORRIED ABOUT **MIGRANT WORKERS** Check out today's HT City



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD. (A Govt. of Uttarakhand Enterprise) "Vidyut Bhawan" Near ISBT, Crossing, Saharanpur Road, Majra, Dehradun- 248002 Corporate ID U40101UR2004GOI028675 Tel. No. 0135-2642711

E-TENDER NOTICE

Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited invites E-Tender for "Construction of 220/33 KV GIS Substation Selaqui Dehradun" against tender specification No. PTCUL/E-Tender/C&P-II/SS 02/2020-21. The last date submission of e-bid is 06.07.2020 upto 13:00 **Hrs.** For more details please visit e-tender website www.uktenders.gov.i (tender id no. 2020_PTCU4_23957_1) and for e-tender notice our website www.ptcul.org. For any assistance on E-Tendering, please contact +91-8899890000

पत्रांक : 255/HQPU Superintending Enginee

"Save Electricity in the Interest of Nation"



Petronet LNG Limited

Regd. Office: World Trade Centre, Babar Road, Barakhamba Lane, New Delhi - 110001 Phone: 011-23411411, Fax: 011- 23472550, CIN: L74899DL1998PLC093073 Email: investors@petronetIng.com, Company's website: www.petronetIng.com **Notice to Shareholders**

Compulsory transfer of Equity Shares of the Company relating to unclaimed dividends to Investor Education and Protection Fund

This Notice is published pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules 2016") notified by the Ministry of Corporate Affairs and amendments thereto. This is to remind the Shareholders of the Company to claim their unclaimed/unpaid dividends. As per Section 124(5) and Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with IEPF Rules, 2016; the Company is required to transfer (i) all dividends remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to unpaid dividend account and (ii) Equity shares in respect of which dividends have not been paid or claimed for seven consecutive years or more; to the 'Investor Education and Protection Fund' (IEPF) established by the Central Government. The required communication in this behalf is being sent to the concerned shareholders, whose email addresses are not registered, at the earliest

possible when postal services are resumed under current COVID-19 situation. The communication to the shareholders, whose email addresses are registered, is being sent on their respective emails. In case the dividends are not claimed by the concerned shareholder by August 31, 2020, necessary steps will be initiated by the Company to transfer shares alongwith unclaimed dividend on such shares held by the concerned shareholder(s) to IEPF without any

further notice in the following manner: In case the shares are held:

In physical form - new share certificate(s) will be issued and transferred in favour of IEPF on completion of necessary formalities. Hence, the original share certificate(s) which stand registered in shareholders' name will be deemed cancelled and non-negotiable.

In demat form - the Company shall transfer the shares by way of corporate action through the Depositories to the IEPF Authority.

The shareholders may note that in terms of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 7 of the IEPF Rules 2016; in the event of transfer of shares held by the shareholders and the unclaimed dividends to IEPF, shareholders are entitled to claim the same from IEPF by submitting an online application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in and send the same duly signed along with requisite documents to the Company at its registered office for verification of the claim The shareholders may further note that the details of the unclaimed dividends and shares of concerned shareholder(s) uploaded by the Company

on its website <u>www.petronetlng.com</u> shall be treated as adequate notice in respect of issue of the new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF pursuant to the IEPF Rules 2016.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of the unclaimed dividend and shares so transferred to IEPF and all future benefits which may accrue there under, including future dividend, will be credited to IEPF.

For ready reference, the provisions of IEPF Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and amendments thereto, have been made available under the Investor section of Company's website: www.petronetIng.com.

In case shareholders have any queries, please contact the Registrar and Transfer Agent of the Company, Shri S. V. Raju, DGM, KFin Technologies Private Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi, Telangana – 500 032, Email ID: <u>raju.sv@kfintech.com</u>, Tel: 040-6716 2222/1800-345-4001.

For Petronet LNG Limited (Rajan Kapur)

CGM & VP - Company Secretary

Date: 31st May 2020

Attention Members Appeal to Members (1) Non acceptance of request for (2) Mandatory updation of PAN and Bank Green Initiative in Corporate Governance

transfer of shares in physical form details against Shareholding with effect from April 1, 2019 Pursuant to NSE circular no. NSE | 2018, shareholders, whose ledger folios environment and also keeping in view of continuing CML/2018/38 dated December 03, do not have or having incomplete details | Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs 2018 and BSE vide Circular No. LIST/ with regard to PAN and Bank particulars, (MCA) through its circular dated May 5, 2020 read

against shareholders' account.

We solicit investors' valuable cooperation and Pursuant to SEBI circular dated 20th April, support in our endeavour to contribute our bit to the

COMP/31/2018-19 dated December are required to compulsorily furnish with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 03, 2018, Registrar and Share Transfer the PAN and Bank details to the RTA at (collectively referred to as 'MCA circulars') permitted Agent (RTA) and the Company will not einward.ris@kfintech.com/the Company at holding of Annual General Meeting (AGM) through accept any request for transfer of shares in linestors@petronetlng.com for registration VC or OVAM, without the physical presence of the physical presence of the members at a common venue. Further, SEBI 1, 2019. This restriction shall not be fully protected with proper KYC compliance. vide its circular dated May 12, 2020, dispensed applicable to the request received for received for transmission or transposition of physical absence of complete bank details registered Report. In view of the above mentioned circulars, the AGM of the members of the Company will be held through VC/OVAM and the Annual Report will be sent to the registered email ids of members, therefore it is earnestly requested again that the Members who have yet not registered/updated their e-mail ids to notify the same to the Company at investors@petronetIng.com or to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company at einward.ris@kfintech.com or to the concerned

BAREILLY SMART CITY LIMITED (BSCL) (BAREILLY (UTTAR PRADESH, INDIA) Smart City Date: 30.05.2020

Ref. No.: BSCL/2020-21/312

Bareilly Smart City Limited, Bareilly Invites e-tender for the following projects:

Date :					
S.N.	Name of the work	(In Lac Earnest Money Deposit (Rs.)	Tender fee with GST @ 18% (Rs.)	Work completion Period	Bid Start date
01	Construction of Handicraft Promotion Centre at Bareilly	100.00	11800	18 Months	03.06.2020
02	Sanjay Community hall & Pond Complex External Development at Bareilly	18.00	11800	18 Months	03.06.2020

Detailed NIT and Bid Document shall be available on : https://etender.up.nic.in and https://www.nagarnigambareilly.com

Tender call notice in two Bid systems (Part - I : General & Technical Bid and Part-II financial Bid/Price

Bid/BOQ) from intending bidders fulfilling the eligibility criteria mentioned in this notice and other qualifying requirements mentioned in this RFP. Amendment to NIT, if any would be published on website only. In case of any queries on this RFP, intending bidders may contact THE GENERAL MANAGER, BAREILLY

SMART CITY LIMITED, Bareilly (Tel No. - 0581-25510074, 7055519602) or send an email to ceo.bscl01@gmail.com

> Chief Executive Officer, **Bareilly Smart City Limited, Bareilly**

नई दिल्ली • सोमवार • ०१ जून २०२०

<mark>संकेत</mark>ः रिकॉर्ड ८३८० नए केस सामने आए, इसके साथ ही देश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या १८२,१४३ तक पहुंच गई

भारत में आज जर्मनी-फ्रांस से ज्यादा मामले होंगे

150000

100000

नई दिल्ली | **हिन्दुस्तान ब्यूरो**

दो महीने से ज्यादा लंबे लॉकडाउन के बाद आज से तमाम तरह की व्यावसायिक गतिविधियां व आवाजाही शुरू हो रही है। लेकिन चिंताजनक बात है कि कोरोना रविवार को रिकॉर्ड 8380 नए मामले सामने आए, इसके साथ ही देश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 182,143 तक पहुंच गई। रफ्तार यही रही तो सोमवार को भारत में जर्मनी और फ्रांस से भी ज्यादा मामले हो जाएंगे।

सातवें स्थान पर भारत! : जॉन हॉपिकंस यूनिवर्सिटी के अनुसार, जर्मनी में रविवार दोपहरतक 183,302 जबकि फ्रांस में 188,752 मामले थे। सबसे ज्यादा संक्रमण वाले शीर्ष दस देशों में जर्मनी अभी आठवें जबकि फ्रांस सातवें स्थान पर है जबकि भारत नौवें स्थान

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि जिस तेजी से नए मरीज सामने आ रहे हैं अगर वही रफ्तार रही तो सोमवार को भारत दोनों से आगे निकलते हुए सातवें स्थान पर पहुंच जाएगा। हालांकि, भारत 20 दिनों में ऐसे चढ़ता गया महामारी का ग्राफ

पटना में मुंबई से आए प्रवासियों की जांच करती एक चिकित्साकर्मी। प्रेट्र

में मृत्युदर दोनों देशों के मुकाबले काफी कम है। जर्मनी में अब तक 8539 लोग जबकि फ्रांस में 28774 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि भारत में सिर्फ 5164 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। यहां मृत्युदर सिर्फ 2.8 फीसदी है।

दिल्ली-तमिलनाडु में हालात **चिंताजनकः** कोरोना संक्रमण अब तक 28 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र-गुजरात के बाद अब तमिलनाडु और दिल्ली भी बुरी तरह संक्रमण की चपेट में हैं।

दिल्ली में बीते दो दिनों से रोजाना 1100 से ज्यादा जबिक तमिलनाडु में 800 से ज्यादा नए लोग संक्रमण के दायरे में आए हैं। जम्मू-कश्मीर, बिहार,

50000 (*एक जून के आंकड़े पांच दिनों के औसत के आधार पर) झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा,

ओडिशा, आंध्र प्रदेश और असम नए हॉट स्पॉट बन रहे हैं। रविवार को पश्चिम

बंगाल में 317, बिहार में 260, हरियाणा में 202, जम्मू कश्मीर में 177 और असम में 161 लोग एक दिन में संक्रमित पाए गए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो मामले ही कम नहीं हो रहे हैं।

अस्पताल में सिर्फ १६ हजार मरीज बढे

आंकडों के विश्लेषण से पता चला कि बीते एक हफ्ते में संक्रमण के 50 हजार से ज्यादा केस आए, लेकिन अस्पताल में मरीजों की संख्या में करीब 16 हजार ही बढी। क्योंकि इस दौरान 32 हजार 528 मरीज ठीक हो गए और 1317 मरीजों की मौत हो गई। देश में सक्रिय मामलों की संख्या ८९९५५ है जबिक अब तक 86,984 लोग पूरी तरह ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बीते 24

29 मई

01 जन

स्रोतः ऑवर वर्ल्ड डाटा, वर्ल्डोमीटर, स्वास्थ्य मंत्रालय

५० से ५९ साल वालों में सबसे ज्यादा संक्रमण

चिताजनक

नई दिल्ली | **मदन जैड़ा**

189943

188987

183752

161880

145478

ईरान

चिली

84112

जर्मनी

देश में 63 फीसदी कोरोना मौतें बुजुर्गो की हुई हैं। यूरोप में यह प्रतिशत और भी ज्यादा है। इसलिए सोचा जाने लगा कि यह बीमारी बुजुर्ग लोगों की है। लेकिन आईसीएमआर के ताजा आंकड़े बताते हैं कि देश के यवाओं में यह बीमारी पैठ बना रही है। नौजवानों के इस बीमारी से संक्रमित होने की दर (अटैक रेट) अच्छी-खासी है।

आईसीएमआर ने देशभर में 10 लाख टेस्ट के आधार पर यह नतीजा निकाला है। 22 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच कुल 1,02,15,618 टेस्ट किए।इनमें से 33,610 नमूने पॉजिटिव थे। नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी, पुणे ने टेस्ट के आधार पर उम्र के हिसाब से संक्रमित होने की दर निकाली है। जो बताती है कि देश में युवा आबादी में भी संक्रमण अच्छा खासा हुआ है। युवाओं और बुजुर्गों में कोरोना संक्रमण की दर में ज्यादा फर्क नहीं है।

रिपोर्ट के अनुसार 20-29 साल की उम्र में प्रति 10 लाख पर कोरोना संक्रमण दर 40.5 दर्ज की गई है। जबिक 30-39 साल के वर्ग में 48.6

युवाओं में कोरोना होने पर आश्चर्य नहीं

वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज वे कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के निदेशक डॉ. जुगल किशोर का इस शोध पर कहना है कि युवा आबादी सर्वाधिक सक्रिय है। संक्रमण दर बताती है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कितना संक्रमण हो रहा है युवा आबादी में अच्छी-खासी संक्रमण दर होने में कोई आश्चर्य नहीं है। अलबत्ता, मृत्यु का खतरा ज्यादा उम्र के लोगों को ज्यादा होगा।

तथा 40-49 साल के वर्ग में 50.1 तथ 50-59 में सबसे ज्यादा 64.9 रिकॉर्ड किया गया। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को दुनियाभर में इस बीमारी के लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील माना गया था,लेकिन भारत के आंकड़े कुछ अलग ही संकेत देते हैं। 60-69 की उम्र वर्ग में कोरोना संक्रमण की दर अपेक्षाकृत कम 61.8, 70-79 में 53.2 तथा 80 से अधिक उम्र के वर्ग में 40.9 पाय गया। यदि 20 साल से कम उम्र में कोरोन का अटैक रेट देखें तो 10-19 साल वालों में यह 12.9 तथा 10 साल से कम

उम्र के बच्चों में 6.1 पाया गया।

हैरतअंगेज : कोरोना से मासूम की ट्रेन में सह-यात्रियों ने आट घंटे तक शव के साथ यात्रा की मौत, शव छोड़कर भागे मां-बाप

रामपुर | **वरिष्ठ संवाददाता**

कोरोना संक्रमित मासूम की दिल्ली एम्स में मौत हो गई। मासूम की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने की जानकारी होते ही मां-बाप अपने कलेजे के टुकड़े का शव अस्पताल में ही छोड़कर भाग आए। एम्स प्रशासन ने इस पर रामपुर

प्रशासन से संपर्क साधा तब हड़कंप मच गया। प्रशासन ने आनन फानन में मासम के मां-बाप को क्वारंटाइन करा दिया है और सैंपल जांच के लिए भेजा है। उधर, मां-बाप की सहमति के बाद एम्स प्रबंधन ने मासम बच्चे का दिल्ली में ही अंतिम संस्कार करा दिया।

प्रकरण मिलक तहसील क्षेत्र के गांव भैंसोड़ी शरीफ से जुड़ा है। गांव निवासी दंपति के करीब नौ माह के बच्चे के सिर में पैदाइशी गांठ थी। इसे डाक्टरों ने ब्रेन ट्यूमर बताया था। नवंबर-दिसंबर से उसका एम्स में उपचार चल रहा था। आपरेशन के लिए 29 मई की तारीख

लिहाजा परिजन 26 मई को उसे एम्स ले गए थे। वहां पहंचने पर नियमानुसार बच्चे का कोरोना टेस्ट कराया गया। बताया जाता है कि इसी बीच बच्चे ने 29 मई को आपरेशन के

परिजनों के सहमति पत्र पर एम्स ने कराया अंतिम संस्कार

जिलाधिकारी ने बताया कि एम्स प्रशासन को जब यह बताया गया कि मां-बाप शव लेने के इच्छुक नहीं हैं, तो उन्होंने नियमानुसार सहमति पत्र मांगा। इस पर मृतक मासूम के पिता की ओर से लिखकर सहमति जताई। इसके बाद एम्स में ही बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया है।

दौरान दम तोड दिया।

मासूम की मौत के उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आयी, लेकिन उस रिपोर्ट और मासूम के शव को लेने वाला वहां कोई नहीं था। मासूम के मां-बाप बच्चे का शव एम्स में ही छोड़कर वहां से भाग आए।

एम्स प्रशासन ने डीएम रामपुर से को सूचना दी गई। एम्स प्रशासन ने जिलाधिकारी को पुरा प्रकरण बताया। डीएम ने सीएमओ डाक्टर सुबोध कुमार शर्मा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मासूम के माता-पिता को उनके गांव से लाकर क्वारंटाइन करा दिया है।

प्रशासन ने की शव लाने की

यहां एक बच्चे की उपचार के दौरान मौत हुई है। बच्चे का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। उसके मां–बाप शव छोड़कर चले आए हैं।

इस पर बच्चे के मां–बाप को तलाश कर क्वारंटाइन कराया गया है। लवी नर्सिंग होम के डॉक्टर-स्टाफ को भी होम क्वारंटाइन करा दिया है।

– आन्जनेय कुमार सिंह,

व्यवस्था, परिजनों ने किया इंकार : जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि बच्चे के पिता मोटर मैकेनिक हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर नहीं रही होगी। फिर भी प्रशासन ने अपने स्तर पर शव लाने की व्यवस्था करायी। इसके बावजद मां-बाप ने शव लेने से इंकार कर दिया।

लवी नर्सिंग होम का पूरा स्टाफ ववारंटाइन : जांच-पड़ताल में पता चला है कि बच्चे को एम्स में ले जाने से पहले स्थानीय स्तर पर दिखाने के लिए लवी नर्सिंग होम लाया गया था। इस पर लवी नर्सिंग होम के संचालक बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मुनीश गुप्ता और उनके पूरे स्टाफ को क्वारंटाइन में भेजा गया है।

राजस्थान से पश्चिम बंगाल जा रही एक श्रमिक विशेष ट्रेन में सवार 50 वर्षीय एक प्रवासी कामगार की बीच रास्ते में ही मौत हो गई। सह-यात्रियों ने शव के साथ आठ घंटे से अधिक समय तक यात्रा की। पुलिस ने रविवार को यह

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में हरिश्चंद्रपुर निवासी बुद्ध परिहार और

कानपुर | **प्रमुख संवाददाता**

श्रमिकों से अब एल स्ट्रेन वायरस के

आने की आशंका है। कानपुर में अब

तक 6 मजदूरों की मौत हो चुकी है

डॉक्टरों का मानना है कि गजरात में

संक्रमण से जल्द मौतों के पीछे एल

स्ट्रेन टाइप वायरस को माना जा रहा है।

चार मजदूरों की मौतें हैलट के न्यूरो

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के

जिनमें पांच गजरात से आए थे।

के बीकानेर में एक होटल में काम करते थे। पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान परिहार और दास की नौकरी चली गई। दोनों ने कई बार मालदा लौटने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। आखिरकार दोनों शुक्रवार सुबह 11 बजे एक ट्रेन में सवार हुए। परिहार की शनिवार रात 10 बजे के करीब उत्तर प्रदेश में पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर के पास मौत हो गई।

उसका रिश्तेदार सरजू दास राजस्थान

परिहार की मौत के बाद सह-यात्रियों में दहशत फैल गई। लोगों को आशंका

हॉस्पिटल में हुई हैं। सभी का बेहतर

इलाज भी किया गया पर इन्हें बचाया

नहीं जा सका। जबकि एसिम्टोमेटिक

सौ से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो घर

गए। इन सभी में एस स्ट्रेन टाइप वायरस

के संक्रमण की संभावना थी। मेडिकल

कॉलेज के डॉक्टरों ने मृत मजदूरों के

साथ शहर में गुजरात, मध्यप्रदेश और

महाराष्ट्र से आए कोरोना पॉजिटिव

श्रमिकों का डाटा बैंक बनाना शुरू कर

दिया है ताकि इन पर शोध हो सके।

बहराइच। जिले के एक श्रमिक दम्पति नेपाल के नवल परासी जिले के ईट भट्टे पर

सीमा पर जन्म, नाम रखा बॉर्डर

मजदूरी करते थे। रविवार को सुबह चार बजे महिला श्रमिक ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे का नाम बॉर्डर रखा गया। इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। इस पर सपा एमएलसी राजपाल कश्यप ने पचास हजार रुपये की धनराशि नवजात शिशु के माता पिता को दी है।

थी कि उसकी मौत कोविड-19 के चलते हुई है। ट्रेन रविवार सुबह करीब 6:40 मिनट पर मालदा टाउन स्टेशन पहुंची, तब शव को रेलवे पुलिस को सौंप दिया गया। शव को पोस्टमार्टम के

प्रवासी मजदूर की मौत इलाज के लिए

मुजफ्फरपुर ले जाने के क्रम में रविवार

को हो गयी। मृतक उसी गांव का विजय

भगत था। मृतक के भाई मंजय कुमार

ने बताया कि सरत से आया विजय

विगत 28 मई से सिसवा मलदिहया

क्वारंटाइन सेंटर पर था। उसकी तबियत

रात में अचानक ख़राब हुई। रविवार

सुबह भाई ने जब विजय ने दूसरे

अस्पताल में ले जाने की मांग की।

लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई।

लिए मालदा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।

घटिया खाने को लेकर श्रमिकों का **हंगामा :** प्रयागराज। चैंगलपट्टू से मुजफ्फरपुर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन

का आरोप लगाते हुए प्रयागराज जंक्शन पर हंगामा किया। श्रमिकों ने खाने को बासी बताकर फेंक दिया और नारेबाजी की। बाद में जीआरपी पहुंची तो मामला शांत हुआ। रविवार सुबह सवा आट बजे ट्रेन प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर सात पर पहुंची। 1600 यात्रियों से भरी ट्रेन में आईआरसीटीसी की ओर से भोजन वितरण किया। इस खाने में पूड़ी और अचार था। श्रमिकों का आरोप था कि खाना बासी है और पूड़ी से बदबृ

के यात्रियों ने रविवार को घटिया खाने

बोर्ड परीक्षा केंद्र बदलने को क्वारंटाइन सेंटर में एक की मौत सीआईएससीई की मंजूरी **पहाड़पुर(पू.चं)।** प्रखंड के सिसवा मलदिहया क्वारंटाइन सेंटर में एक

सीआईएससीई ने छात्रों को उसी शहर से बोर्ड की लंबित परीक्षा देने की अनुमति दे दी है, जहां वे वर्तमान में हैं। अधिकारियों ने बताया कि परिषद ने

परीक्षार्थियों को बाद में कंपार्टमेंटल परीक्षा के समय परीक्षा में उपस्थित होने का विकल्प भी दिया है। लॉकडाउन के कारण स्थगित की गई परीक्षाएं एक से 14 जुलाई तक आयोजित होंगी।

अलग-अलग स्थानों पर चले गए थे। सीआईएससीई के मख्य कार्यकारी और सचिव गेरी अराथून ने कहा कि स्कूलो व छात्रों के अभिभावकों ने परीक्षार्थियो के परीक्षा केंद्र बदलने का अनरोध किया है। यदि छात्र इस समय उस जिले में नहीं हैं जहां उनका स्कुल है तो बाकी की परीक्षा वे उस शहर के सीआईएससीई द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से दे सकते हैं,

जहां वे अभी हैं।

पीएम केयर्स से कितना पैसा दिया

नई दिल्ली। कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री केयर्स फंड को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने सवाल किया है कि पीएम केयर्स फंड से प्रवासी मजदूरों को कितना पैसा दिया गया है।

कोरोना का जिक्र करते हुए कहा

कि इसने सरकार की लाचारी दिखा दी है। सरकार के पास मजदुरों का आंकड़ा नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए मीडिया से बात करते हुए कहा कि चार घंटे में लॉकडाउन लागू करने वाली सरकार को अब मालम नहीं किस रास्ते जाना है। तभी एक एडवाइजरी आती है, फिर दूसरी एडवाइजरी जारी की जाती है। सरकार के पास कोई रणनीति नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार 24 मार्च से पहले और उसके बाद जो काम कर रही हैं उसमें बहुत फर्क है। **(वि.सं.)**

कोहिमा | **एजेंसी**

दे दी गई थी।

नगालैंड सरकार ने क्वारंटाइन केंद्र

क्वारंटाइन केंद्र में रखे गए इस युवक

यूपी में कोविड के 257 नए मामले सामने आए

लखनऊ **प्रमुख संवाददाता**

प्रदेश में रविवार को 257 और मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अब तक 7823 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 4709 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। इस तरह अब 2901 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा अब तक 1027 श्रमिकों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। यह जानकारी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने रविवार को अपर मख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में दी।

कोविड अस्पतालों में एक लाख बेड: मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग ने मिलकर प्रदेश में कोविड अस्पताल की एल-1, एल-2 और एल-3 त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत

को 25 मई को छुट्टी दी गई जबकि

टीम का गठन किया है जो मामले की

संख्या बढ़कर 43 हो गई है। सात में

उसकी दुसरी रिपोर्ट अगले दिन

नगालैंड सरकार ने मामले को गंभीर मानते हुए न्यायिक जांच के लिए समिति गठित की

संकट

• कोविड अस्पतालों में बन गए एक लाख से अधिक बेड

• १०२७ प्रवासी श्रमिकों में कोरोना के लक्षण मिले

बेडों की संख्या बढ़ाकर एक लाख एक हजार 236 बेड तक कर ली है।

उत्तराखंड में महिला डॉक्टर समेत **158 मरीज मिले** : उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के 158 नए मरीज मिले। सबसे अधिक 49 मरीज देहरादून जिले के हैं। जबकि नैनीताल में 31 मरीज मिले हैं। राज्य में कुल मरीजों की संख्या अब 907 पहुंच गई है। पॉजिटिव पाए गए मरीजों में दून अस्पताल की महिला डॉक्टर भी शामिल है। रविवार को 1221 सैंपल की रिपोर्ट आई जिसमें से 158 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई।

बिहार में 127 पॉजिटिव मिले, एक की मौत

इसमें 18 जिलों में 111 संक्रमितों की वहीं, राज्य में एक कोरोना संक्रमित की मौत भी हो गयी। मृतक बेगुसराय का निवासी था । विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार बिहार में अबतक 3692 कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। जबिक कोरोना से मारने वालों की

झारखंड के चार जिलों में मिले 16 मरीज: राज्य में रविवार को कोरोना के 16 नए मरीज मिले हैं। नए मरीजों के साथ ही राज्य में अब तक मिले पॉजिटिव मरीजों की संख्या 610 हो गई है। रविवार को मिले नए मरीजों में सर्वाधिक 10 मरीज पूर्वी सिंहभूम के, 3 हजारीबाग के और रामगढ़, लोहरदगा

आशंका : प्रवासियों से एल

स्ट्रेन वायरस की दस्तक!

पटना। बिहार में 127 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान रविवार को हुई। सचना स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई।

संख्या बढ़कर 23 हो गई।

और रांची के 1-1 मरीज हैं।

पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-110001

फोनः 011-23411411, फैक्सः 011-23472550

सीआईएनः L74899DL1998PLC093073 ई-मेलः investors@petronetlng.com, कम्पनी की वेबसाइटः www.petronetlng.com

शेयरधारकों के लिए सूचना

बेदावेदार लाभाशों से संबंधित कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अनिवार्य हस्तांतरण यह सचना कम्पनी अधिनियम, 2013 साथ में पठित कार्पेरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसचित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और रिफंड) नियमों,

2016 (''आईईपीएफ नियमों 2016'') तथा उसके संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित की जा रही है। यह कम्पनी के शेयरधारकों को अपने बेदावेदार/अदेय लाभांशों का दावा करने हेतु उन्हें याद दिलाने के लिए है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) और धारा 124(6) और साथ में पठित आईईपीएफ नियमों. 2016 के अनसार, कम्पनी को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि' (आई.ई.पी.एफ.) में हस्तांतरित करना होगा (j) अदेय लाभांश खाता में हस्तांतरित

या दावा नहीं किया गया है। वर्तमान कोविड-19 स्थिति के तहत, संबंधित शेयरधारकों को, जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, यह अपेक्षित सूचना, डाक सेवाएं शुरू होने पर जल्द से जल्द भेजी जाएगी। ऐसे शेयरधारकों को सूचना उनके संबंधित ई-मेल पर भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते पंजीकत हैं।

करने की तिथि से सात वर्षों की अविधि के दौरान अदेय या बेदावेदार पड़े शेष सभी लाभांशों और (ii) ऐसे इक्विटी शेयरों जिसके संबंध में लाभांश को सात अनवरत वर्षों या अधिक के दौरान भगतान

यदि संबंधित शेयरधारकों दारा लाभांशों पर दावा 31 अगस्त 2020 तक नहीं किया जाता है. तो संबंधित शेयरधारक (कों) दारा धारित शेयरों माथ में ऐसे शेयरों पर बेदावेदार लाभांश को कम्पनी द्वारा बगैर कोई अन्य सूचना दिए, निम्नांकितानुसार, आई.ई.पी.एफ. को हस्तांतरित करने के जरूरी चरण शुरू कर दिए जाएंगे।

यदि शेयर निम्न रूप में धारित हों:-भौतिक रूप में - आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने पर, आई.ई.पी.एफ. के पक्ष में नए शेयर प्रमाणपत्र जारी और हस्तांतरित किए जाएंगे। इसलिए, शेयरधारकों के नाम में पंजीकृत मूल शेयर

रमाणपत्र(ओं) को रह और गैर-परकाम्य माना जाएगा - डिमैट रूप में - कम्पनी डिपॉजिटरीज के जरिए कॉरपोरेट कार्यवाही के माध्यम से शेयरो को आई.ई.पी.एफ. प्राधिकरण को हस्तांतरित करेगी।

शेयरधारक ध्यान दें कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) और आई.ई.पी.एफ. नियमों 2016 के नियम 7 के संदर्भ में, आई.ई.पी.एफ. को शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों और बेदाबेदार

लाभांश को हस्तांतरण करने की स्थिति में, शेयरधारक वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र आईईपीएफ-5 पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करके आई.ई.पी.एफ. से उसका दावा करने के हकदार है तथा दावे के सत्यापन हेतु कम्पनी को उनके पंजीकृत कार्यालय में अपेक्षित दस्तावेजों के साथ उसे विधिवत हस्ताक्षित भेजें। शेयरधारक इसके अलावा कृपया ध्यान दें कि संबंधित शेयरधारकों के बेदावेदार लाभांश और शेयरों के विवरण कम्पनी द्वारा इसकी वेबसाइट www.petroneting.com पर अपलोड कर

दिया गया है जिसे आईईपीएफ नियमों 2016 के अनुसार आईईपीएफ को शेवरों के हस्तांतरण के उद्देश्य हेतु कम्पनी द्वारा नए शेवर प्रमाणपत्र(त्रों) के निर्गमन के मामले में पर्याप्त सूचना के रूप में कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ को हस्तांतरित किए गए बेदावेदार लाभांश और शेयरों के मामले में कम्पनी के समक्ष कोई भी दावा लम्बित नहीं है और भविष्य के सभी लाभों जो इसके

तहत प्राप्त किए जाएंगे साथ में आगामी लाभांश को आईपीएफ में जमा करा दिया जाएगा। आपके तत्काल संदर्भ के लिए, आईईपीएफ. प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण तथा रिफंड) नियमों, 2016 तथा उसके संशोधनों के प्रावधानों को, कम्पनी की वेबसाइट www.petronetlng.com के इनवेस्टर सेक्शन के अधीन उपलब्ध करवाया गया है।

अगर शेयरधारकों को कोई भी पूछताछ करनी है तो वे कृपया कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, श्री एस. वी. राजू, डीजीएम, केफिन टैक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग, टावर-बी, प्लॉट सं. 31 एवं 32, फाईनेशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रमगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना - 500032, ईमेल आईडी: raju.sv@kfintech.com, टेली.: 040-

67162222/1800-345-4001 से सम्पर्क कर सकते हैं।

कते पेटोनेट एलएनजी लिमिटेड हस्ताक्षर/-(राजन कपूर) सीजीएम एवं वीपी - कम्पनी सर्चिव

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 31 मई, 2020

सदस्यों से अपील

कारपोरेट शासन में हरित पहल हम पर्यावरण हेतु, हमारे हिस्से का योगदान के लिए, हमारे प्रयास के समर्थन और आपके अमल्य सहयोग की सराहना करते हैं और कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 साथ में पठित परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 (समग्र रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में पढ़ा जाए) के माध्यम से किसी सामहिक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी या ओवीएएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) संचालित करने की अनुमति प्रदान की है। इसके अलाव सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट की कागजी प्रति भेजने की जरूरत को समाप्त कर दिया है। उपरोक्त वर्णित परिपत्रों के पालन अनसार कम्पनी के सदस्यों की एजीएम वीसी/ओवीएएम के माध्यम से संचालित की जाएगी और वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों के पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी, लिहाजा जिन सदस्यों ने अपना ईमेल आईडी अभी तक पंजीकृत/अद्यतन नहीं करवाया है, उनसे आग्रह किया जाता है कि वे इसे investors@petronetIng.com में कंपनी या कम्पनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को einward.ris@kfintech.com में या संबंधित डिपॉजिटरी को अधिसूचित कर दें।

सख्तीः संक्रमित की छुट्टी पर स्वास्थ्य सचिव नपे

हस्तांतरण के लिए आग्रह की अस्वीकृति

एलआई एसटी/सीओएमपी/31/2018-19 दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 तथा एनएसई परिपत्र सं. एनएसई/सीएमएल/2018/38 दिनांक 03 दिसम्बर 2018 के अनुसरण में, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) और कंपनी 01 अप्रैल, 2019 से भौतिक रूप में शेयरों के हस्तांतरण हेत कोई भी आग्रह स्वीकार नहीं करेगी।यह प्रतिबंध भौतिक शेयरों के प्रचारण या व्युत्क्रमण के लिए प्राप्त आग्रह हेतु लागू

(2) आपके शेयरधारण के समक्ष पैन और बैंक

ऐसे शेयरधारक जिनके खाते/बही में पैन और बैंक विवरण पंजीकृत नहीं हैं या अपूर्ण हैं, उनसे आग्रह किया जाता है कि वे अपने खाते/बही में पंजीकरण हेतु कम्पनी को investors@petronetIng.com या einward.ris@kfintech.com पर, अपने विवरण अनिवार्य रूप से दे दें ताकि धारित निवेश उचित केवाईसी स्वीकृति के साथ पूर्णतः सुरक्षित हो जाएं। कृपया ध्यान दें कि शेयरधारकों

सदस्यगण ध्यान दें (1) 1 अप्रैल, 2019 से भौतिक रूप में शेयरों के

> सेबी परिपत्र दिनांक 20 अप्रैल 2018 के अनुसरण में के खातों के तहत पंजीकृत सम्पूर्ण बैंक विवरण नहीं

होने पर कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा।

से बाहर भेजे गए एक व्यक्ति के आई। इस मामले को गंभीरता से लेते राजस्थान में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण से एक और मौत हो गई कोरोना संक्रमित पाए जाने पर राज्य हुए राज्य सरकार ने न्यायिक जांच जिससे राज्य में मरने वालों की संख्या 194 हो गई है। वहीं 76 नए मामले सामने आने के बाद इस घातक वायरस से संक्रमित होने वालों की कुल संख्या के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव हो हटा करने के आदेश दिए हैं। राज्य 8,693 हो गई है। राज्य में मृतकों की कुल संख्या 194 हो गई है। केवल दिया है। रविवार को अधिकारियों ने सरकार ने सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र जयपुर में ही कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 91 हो गया है। बताया कि चेन्नई से लौटे व्यक्ति को न्यायाधीश एलएल सेमा की दूसरी रिपोर्ट आने से पहले ही छुट्टी अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच

प्रमुख सचिव मेनुखोल जॉन को स्वास्थ्य विभाग और आयुक्त की चेन्नई से लौटे सात और संक्रमित मिलेः चेन्नई से नगालैंड अतिरिक्त जिम्मेदारी ले ली गई है। लौटे सात लोगों में रविवार को अब कला एव संस्कृति सचिव अहोला थोसे को स्वास्थ्य विभाग की कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई जिम्मेदारी दी गई है। कोहिमा के जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल

जांच करेगी।

से चार मामले कोहिमा के और तीन दीमापुर के हैं। बाहर से लौटे शख्स के कारण ही नगालैंड में 25 मई को संक्रमण का पहला मामला मिला।

राजस्थान में ७६ नए केस आए

ओडिशा-आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने रिकॉर्ड तोड़ा : ओडिशा और आंध्र प्रदेश में रविवार को कोरोना संक्रमण के एक दिन में

आंध्र प्रदेश में 110 नए मामले सामने आए तो, ओडिशा में 129 संक्रमित मिले। कुल संक्रमितों की संख्या आंध्र प्रदेश में 3,571 और ओडिशा में 1,948 हो गई है। आंध्र में दो और मौतों के बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या 62 हो गई है।

सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए।



Petronet LNG Limited

Regd. Office: World Trade Centre, Babar Road, Barakhamba Lane, New Delhi – 110001 Phone: 011-23411411, Fax: 011- 23472550, CIN: L74899DL1998PLC093073 Email: investors@petronetlng.com, Company's website: www.petronetlng.com

Date: 1st June, 2020

REF: FOLIO/DPID/CLIENT ID:

Dear Shareholder(s),

Sub.: Compulsory transfer of Equity Shares alongwith unclaimed dividend on such shares of the Company relating to unclaimed dividends for the financial year 2012-13 to Investor Education and Protection Fund

- 1. As per Section 124(5) and Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("hereinafter referred to as IEPF Rules, 2016"); the Company is required to transfer (i) all dividends remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to unpaid dividend account and (ii) Equity shares in respect of which dividends have not been paid or claimed for seven consecutive years or more; to the 'Investor Education and Protection Fund' (IEPF) established by the Central Government.
- 2. Details of such unclaimed dividends are regularly updated on the website of the Company and reminder letters have also been sent from time to time to the shareholders to claim their unclaimed dividends.
- As per our records, the amount(s) of dividends as mentioned in the enclosed Letter of Undertaking are unclaimed against your name. We request you to claim the unclaimed dividends due to you from the financial year 2012-13 onwards. Unclaimed dividends upto the financial year 2011-12 have already been transferred to IEPF Authority. To claim the outstanding dividend, kindly first ensure registration of correct bank details including your core banking account no. and IFSC/MICR of your bank against your demat A/c with your Depository Participant / Registrar and Share Transfer Agent KFin Technologies Private Limited. The duly filled and signed Letter of Undertaking should thereafter be sent alongwith the following document(s) from your registered email address or by way of a letter so as to reach the RTA at their address mentioned below or email at raju.sv@kfintech.com on or before August 31, 2020:

 For shares held in demat form:
 - Copy of the Demat Account Statement (Client master list) showing your name, address, demat and bank account details registered against the demat account.

For shares held in physical form:

- o Original Cancelled cheque leaf bearing the name of the first shareholder. or,
- Bank attested copy of first page of the Bank Passbook/Statement of Account in original and a cancelled cheque.

Please note that no payment can be made in absence of complete bank details registered against your account.

In case we do not receive your claim for the dividends as aforesaid by August 31, 2020, all your relevant shares alongwith unclaimed dividend on such shares (whether held in physical or electronic form) will be transferred by the Company to IEPF as per the statutory requirements as stated above, without any further notice in the following manner:

In case the shares are held by you:

- In physical form new share certificate(s) will be issued and transferred in favour of IEPF on completion of necessary formalities. Hence, the original share certificate(s) which stand registered in your name will be deemed cancelled and non-negotiable.
- In demat form the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares lying in your demat account in favour of IEPF.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of the shares so transferred to IEPF and all future benefits which may accrue thereunder, including future dividend(s), will be credited to IEPF.

- 4. You may also take note that in terms of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 7 of the IEPF Rules 2016; in the event of transfer of shares held by you and the unclaimed dividends to IEPF, you are entitled to claim the same from IEPF by submitting an online application in the prescribed Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in and send the same duly signed along with requisite documents to the Company at its registered office for verification of the claim.
- 5. For your ready reference, the provisions of IEPF Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, have been made available under the 'Investor' section of company website: www.petronetlng.com.
- 6. In case you have any queries, please contact Shri S. V. Raju, DGM, KFin Technologies Private Limited, Registrars and Share Transfer Agent of the Company, Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi, Telangana 500032, Email ID: raju.sv@kfintech.com, Tel: 040-6716 2222 / 1800-345-4001.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Petronet LNG Limited
Sd/(Rajan Kapur)
CGM & VP - Company Secretary

Encl: as above

Attention Members Appeal to Members

(1) Non acceptance of request for transfer of shares in physical form with effect from April 1, 2019

Pursuant to NSE circular no. NSE/CML/2018/38 dated December 03, 2018 and BSE vide Circular No. LIST/COMP/31/2018-19 dated December 03, 2018, Registrar and Share Transfer Agent (RTA) and the Company will not accept any request for transfer of shares in physical form with effect from April 1, 2019. This restriction shall not be applicable to the request received for transmission or transposition of physical shares.

(2) Mandatory updation of PAN and Bank details against your Shareholding

Pursuant to SEBI circular dated 20th April, 2018, shareholders, whose ledger folios do not have or having incomplete details with regard to PAN and Bank particulars, are required to compulsorily furnish the PAN and Bank details to the RTA at einward.ris@kfintech.com / the Company at investors@petronetlng.com for registration in the folio so that the investments held by you will be fully protected with proper KYC compliance. Please note that no payment can be made in absence of complete bank details registered against your account.

Green Initiative in Corporate Governance

We solicit your valuable cooperation and support in our endeavour to contribute our bit to the environment and also keeping in view of continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA circulars') permitted holding of Annual General Meeting (AGM) through VC or OVAM, without the physical presence of the Members at a common venue. Further, SEBI vide its circular dated May 12, 2020, dispensed the requirement of sending hard copy of Annual Report. In view of the above mentioned circulars, the AGM of the members of the Company will be held through VC/OVAM and the Annual Report will be sent to the registered email ids of members, therefore it is earnestly requested again that from the Members who have yet not registered/updated their e-mail ids to notify the same to the Company at investors@petronetIng.com or to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company at einward.ris@kfintech.com or to the concerned depository.

LETTER OF UNDERTAKING FOR ISSUE OF DUPLICATE DEMAND DRAFT/PAY ORDER/DIRECT CREDIT

M/s KFin Technologies Private Limited (Unit: Petronet LNG Limited) Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi, Telangana – 500 032

REF: FOLIO/DP ID/CLIENT ID:

Kindly arrange for payment of unclaimed dividend as mentioned below based on your letter dated 1st June, 2020.

I/We hereby confirm that I/we have not encashed, negotiated or otherwise dealt in any of the dividend paid by the Company in previous financial years, so as to create any adverse claim upon the amount of the dividend warrant(s). The following are the details of the unclaimed dividends for the respective financial years:

Financial year	Dividend Amount (Rs.)
Final Dividend 2012-13	
Final Dividend 2013-14	
Final Dividend 2014-15	
Final Dividend 2015-16	
Final Dividend 2016-17	
Final Dividend 2017-18	
Special Interim Dividend 2018-19	
Final Dividend 2018-19	
Special Interim Dividend 2019-20	

Final Dividend 2018-19			
Special Interim Dividend 2019-20			
I/we am enclosing the following (tick whichever shares held in demat form:	ing bank details regist	rst shareholder. or,	
Further, I/we hereby agree and undertake to hold the Company, its Directors and officers harmless and to keep them protected from / against all losses, costs or damages which you may sustain or incur by reason of the Company issuing Demand Draft(s)/ Pay Order(s) or by the original Dividend Warrant(s) being, at any time, found and presented for payment by any person or persons claiming to be the holder(s) of the Dividend Warrant(s) or in any way interested there in. I/We further agree and undertake to return to you the original Dividend Warrants, should it be found by me/us or again come into my/our possession at any time hereafter.			
Particulars	Name		Signature
First Holder			
Second holder			
Third holder			
Address of first holder:			
Email ID of First Shareholder:			
Mobile No. of First Shareholder:			

Witness 1	Witness 2
Name:	Name:
Address:	Address:
Signature:	Signature:

Dated:

- For the undertaking to be considered complete, please ensure details are filled correctly and it is duly signed by all the holders Note 1: and two witnesses.
- Please note that if the dividend amount is in excess of Rs. 500/- then the 'Letter of Undertaking' shall be executed on Rs.20/- Non-Judicial Stamp Paper or franking of Rs. 20/- would suffice.

 Please return this Annexure duly filled in and signed to KFin Technologies Private Limited, Registrars and Share Transfer Note 2:
- Note 3: Agent of the Company on or before August 31, 2020.